

Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009 Tel: 91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2023-24/2190

September 05, 2023

The Secretary
BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726)
Corporate Relationship Department,
At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
(Equity Scrip Code: VIPULLTD)
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

Dear Sir(s),

Sub: Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith **copies of New Paper clippings** regarding Annual General Meeting and Remote E-voting published on Tuesday, September 05, 2023 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language interalia containing the following details:

- i. Notice of 32ND Annual General Meeting ("AGM") of Vipul Limited being convened on **Saturday**, **September 30**, **2023** at 12:30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') read with Circular No. SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated August 11, 2023, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue of the Annual General Meeting of the Company is the registered office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
- ii. Details of completion of dispatch of Notice of AGM/Annual Report.
- iii. Details regarding remote e-voting period, which commences on **Tuesday**, **September 26**, **2023**, **9:00** a.m. and ends on Friday, **September 29**, **2023**, **5:00** p.m. The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM.
- iv. Details of cut-off date for reckoning the voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company i.e. **Saturday**, **September 23, 2023**.
- v. Details of Book Closure for AGM. The Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday**, **September 23**, **2023** to **Saturday**, **September 30**, **2023** (both days inclusive) for the purpose of AGM.



Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43 Gurgaon - 122 009 Tel: 91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000 E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you Yours faithfully For **Vipul Limited**

(Sunil Kumar) Company Secretary A-38859



MADRAS BOAT CLUB

CIN: U92412TN2009NPL071459 No.2, 3rd Avenue, Boat Club Road, Raja Annamalai Puram, Chennai - 600 028

Phone: 044-24353190/24354751/24339289 | Fax: 044-24323235 Email: info@madrasboatclub.in Web: www.madrasboatclub.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (14th AGM) of the Madras Boat Club will be held on Wednesday, 27th September 2023 at 4.00 PM at Madras Boat Club situated at No. 2, 3rd Avenue, Boat Club Road, Raia Annamalaipuram Chennai, to transact the businesses as set out in the Notice. The Company has arranged to provide remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members for all the resolutions set forth in the Notice

- a) Date and time of commencement of remote e-voting:
- September 26, 2023, 5:00 P.M. (IST)
- 26, 2023
- 21st September 2023
- of the Notice may obtain the login details by sending a request at info@madrasboatclub in
- Once the votes are cast by the Members, the same shall not be allowed to be changed subsequently. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. Members who have not casted vote through remote evoting will be provided the facility to vote at the venue of AGM through ballot papers.
- the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM.
- n) The notice of the AGM is available at the website of the Company http://www.madrasboatclub.com. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e- Voting facility and e-voting system during the AGM)
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder or Mr. Rakesh Dalvi 1800225533 (toll free).

S. Srinivasan **Director- Honorary Secretary** (DIN: 00649282)

For Madras Boat Club



GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED

CIN: L24304GJ2018PLC105479

Registered Office: Survey No. 16 / 3, 26 and 27, Village Ranjitnagar Taluka Ghoghamba, District Panchmahal - 389380, Gujarat.

Telephone: +91 2678 248153 Email id: bvdesai@gfl.co.in Website: www.gfl.co.ir NOTICE OF THE 5[™] ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING AND RECORD DATE

NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Gujarat Fluorochemicals Limited ('the Company') will be held on Friday, 29th September 2023 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), the Company has sent Notice of the AGM along with a weblink to access the Integrated Annual Report 2022-23 on Monday, 4th September 2023, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agent / Depository Participants ('DPs'). The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report 2022-23 to those Members who specifically request for the same at bvdesai@gfl.co.in or bhavesh.jingar@gfl.co.in mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID.

The Integrated Annual Report 2022-23 of the Company along with Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.gfl.co.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of the National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com

Remote e-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, the Company is pleased to provide to its Members the facility of remote e-Voting before/during the AGM in respect of the business to be transacted as mentioned in the Notice of the AGM and for this purpose, the Company has

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notes to the Notice of the AGM Members are requested to note the following

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period

Commencement of remote e-Voting Tuesday, 26th September, 2023 at 09:00 a.m. Conclusion of remote e-Voting Thursday, 28th September, 2023 at 05:00 p.m The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and

- share capital of the Company as on Friday, 22nd September, 2023 ('cut-off date'). The facility of remote e-Voting shall also be made available during the Meeting and shall be disabled 15 minutes after the conclusion of the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right to vote during the Meeting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. A person whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may attend the Meeting electronically
- request at evoting@nsdl.co.in. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then he / she can use his/her existing User ID and password for casting
- the Company and becomes a Member of the Company after despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date may follow the login process mentioned at point 15(A) of the Notes to the Notice of the AGM.
- Members can also login by using the existing login credentials of the demat account held through DPs registered with NSDL or Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for remote e-Voting facility.

appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGN in a fair and transparent manner.

In case of any queries / grievances pertaining to remote e-Voting (before / during the AGM) you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting use manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to at <u>evoting@nsdl.co.in</u>

Dividend and Record Date:

2023 had recommended a final dividend Rs. 2/- per equity share having face value of Re. 1/ each. The final dividend, if approved, by the shareholders in the ensuing AGM, will be paid in 30 days and the same be paid to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company as on record date (cut-off date) 22nd September, 2023 in respect of Shares held in physical form and to those beneficial owner of shares (BENPOS) received from NSDL and CDSL, in respect of shares held in Electronic Form."

For Gujarat Fluorochemicals Limited

Place: Vadodara Date: 04th September, 2023

Bhavin Desa **Company Secretary**

TECHNVISION VENTURES LIMITED

CIN: L51900TG1980PLC054066 Regd.Office: 1486(12-13-522), Lane No.13, Street No.14, Tarnaka, Secunderabad – 500 017. Tel: 040-27170822, 040-27177591 Fax: 040 - 27173240 Website: www.technvision.com, Mail id: info@technvision.com

NOTICE ON INFORMATION REGARDING 43rd ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE HELD THROUGH
VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS

he Company is intended to send Notice of 43rd Annual General Meeting ("AGM" of the Members of the Company scheduled to be held on **Friday**, the 29th day of **September**, 2023 at 10.00 A.M.(Indian Standard Time – IST) through Video Conferencing / Other Audio Visuals Means ("VC/OAVM") Facility, without physical resence of members, in compliance with the applicable provisions of Companie Act 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with MCA Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5th, 2020, Circular No.02/2021 dated 13th January, 2021, MCA Circular No. 02/2022 dated 05th May, 2022 and MCA Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 (collectively Referred as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI HO /CFD /CMD1 /CIR /P/ 2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/ HO/ CFD/ CMD2/ CIR/ P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI /HO /CFD /CMD2 /CIR P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI Circular No. SEBI/ HO/CFD/ PoD- $^{2/P/CIR/2023/4}$ dated 05th January, 2023 issued by SEBI, to transact businesses set forth in the Notice convening the 43 dM.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 43rd AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-2023, will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company, Depository Participant(s). The said Notice and Annual Report will be available or the Company's Website www.technvision.com and on the websites of the stock Exchanges where the shares of the Company are listed (www.bseindia.com) and on the website of CDSL https://www.evotingindia.com/

Manner of registering/updating e-mail addresses:

 Members holding share(s) in the physical mode are requested to register their email address temporarily with the Company's RTA i.e. Venture Capital and Corporate Investment Private Limited by writing at investor.relations@vccipl.com in order to receive the Notice of 43rd AGM, Annual Report for the year ended 31rd March, 2023 and login credentials for evoting.

 Member(s) holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository $participant (s) for receiving \, communication \, from \, the \, Company \, electronically.$

Manner of casting Vote through e-voting: The Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of all resolutions set out in the Notice convening the 43 dAGM. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the

date of the AGM will be provided by CDSL. Members attending the 43rd AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made vailable to the members through e-mail after they successfully register their e

mail addresses in the manner provided above

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of For TECHNVISION VENTURES LIMITED

Company Secretary

Santosh Kumar Diddiga Place: Secunderabad

Date: 04.09.2023

HEG LIMITED

Read, Off.: Mandideen (Near Bhonal), Distt. Raisen-462046, Madhya Pradesh 07480-233524, 233525; Fax: 07480-233522

Corp. Off.: Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida-201301 (U.P.); Phone: 0120-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841; CIN: L23109MP1972PLC008290

E-mail: heg.investor@Injbhilwara.com; Website: www.hegltd.com NOTICE is hereby given that the following Share Certificate(s) have been reported lost/misplaced

Any person who has any claim in respect of any of these shares should communicate the same at Company's Registered Office/Corporate Office within 15 days from the date of this Notice. The Company will start the process to issue duplicate Share Certificate(s) / Letter(s) of Confirmation/ Entitlement Letter(s), wherever applicable, in case no objection is received.

SI No.	Folio No.	Name of Shareholder(s)	S/Certificate No	Distinctive Nos.	Shares
1	S0000074	Sejmal Jain	747-748	2099901-2100000	100
2	K0000356	Kamlesh	18051	7611109-7611138	30
		Virendra Kumar	19883	8386695-8386724	30
			52672	8779296-8779320	25
			104540-104541	12696603-12696667	65
			364128-364130	34494412-34494561	150
3	00050860	Lalit Shikare	147475	18026366-18026415	50
			312536	29751129-29751178	50
*4	00064534	Chandra Kala Chordia	328747	30561316-30561365	50
*5	00049932	Kumar Pal Shantilal Akolia Shantilal Manilal Akolia	311406	29694629-29694678	50
*6	00062035	R C Bhavsar	325631-325632	30405643-30405742	100

Note: Shares mentioned at Sl. No. 4 to 6 are also related to IEPF claims

Date : 04 09 2023 Place: Noida (U.P.)

for HEG LIMITED (Vivek Chaudhary) Company Secretary (A-13263)



SHRIRAM MUTUAL FUND

Shriram House, No. 4 Burkit Road, T. Nagar, Chennai - 600 017 **Shriram Asset Management Company Limited (Investment Manager)** 2nd Floor, Swastik Chambers, Near Junction of S.T.

Chembur, Mumbai - 400 071. CIN: L65991MH1994PLC079874; Website: www.shriramamc.in

NOTICE-CUM-ADDENDUM

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, the exit load of the following Schemes will be revised as under with

Name of Scheme	Existing Exit Load	Revised Exit Load
Shriram Aggressive Hybrid Fund	If redeemed / switched-out within 365 days from the date of allotment:-	If redeemed / switched-out within 90 days from the date of allotment:-
	For 12% of units: Nil	Upto 12% of units: Nil
	More than 12% of units: 1% of applicable Net Asset Value (NAV).	 More than 12% of units: 1% of applicable Net Asset Value (NAV).
	If redeemed/switched out after 365 days from the date of allotment: Nil	If redeemed/switched-out after 90 days from the date of allotment: Nil
Shriram Flexi Cap Fund	For exit within 365 days from the date of allotment - 1% of applicable Net Asset value (NAV) & For exit after 365 days from the date of allotment - Nil	If redeemed / switched-out within 90 days from the date of allotment:- • Upto 12% of units: Nil • More than 12% of units: 1% of applicable Net Asset Value (NAV). If redeemed/switched-out after 90 days from the date of allotment: Nil
Shriram Balanced Advantage Fund	If redeemed / switched-out within 365 days from the date of allotment: Upto 12% of units held by the investor: Nil More than 12% of units held by the investor: 1% of applicable Net Asset Value (NAV) If redeemed/switched out after 365 days from the date of allotment: Nil	If redeemed / switched-out within 90 days from the date of allotment: Upto 12% of units: Nil More than 12% of units: 1% of applicable Net Asset Value (NAV). If redeemed/switched-out after 90 days from the date of allotment: Nil
Shriram Multi Asset Allocation Fund	1% of the applicable NAV, if redeemed/ switched-out within 1 year from the date of allotment.	If redeemed / switched-out within 90 days from the date of allotment:- • Upto 12% of units: Nil • More than 12% of units: 1% of applicable Net Asset Value (NAV). If redeemed/switched-out after 90 days from the date of allotment: Nil

The aforesaid changes in load structure will be applicable on a prospective basis from Effective Date in respect of investments made in the above-mentioned schemes on or after the Effective Date including al special products offered under the above-mentioned schemes such as Systematic Investment Plan (SIP), Systematic Transfer Plan (STP), Systematic Withdrawal Plan (SWP), switches, transfer, etc

lecessary/incidental changes shall be carried out in the Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) of the above-mentioned schemes

This notice-cum-addendum forms an integral part of the SID & KIM of the above-mentioned Schemes as amended from time to time All the other terms and conditions as mentioned in the SID & KIM of the above-mentioned Schemes, read

with the addenda issued from time to time, shall remain unchanged For Shriram Asset Management Company Limited

(Investment Manager of Shriram Mutual Fund)

Date: September 04, 2023 Place : Kolkata

Sneha Jaiswal Compliance Officer

For more information, please contact Shriram Asset Management Company Limited, 511-512, Meadows, Sahar Plaza, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059. Tel: 022 6947 3400, Email: info@shriramamc. in, Website: www.shriramamc.in

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.











Registered Office: Plot No.: 38, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010, Odisha, India, CIN: L14103OR2000PLC006230, Tel No.: +91-0674-2602763, E-mail: cs@arssgroup.in, Website: www.arssgroup.in

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE CONVENED THROUGH VIDEO CONFERENCING(VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOKCLOSURE. RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting of ARSS Infrastructure Projects Limited ("the Company") will be hel through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Tuesday 26th September, 2023 at 11.00 A.M. (IST), in compliance with all the provisions of Companies Act, 2013 and Rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General circular dated December 28, 2022, read together with circulars dated April 8, 2020, April 13 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted convening the Annual General Meeting ("AGM" / "Meeting") through Video Conferencing ("VC") or Other Audic Visual Means ("OAVM"), without physical presence of the members at a common venue. Further, Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), vide its Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 ('SEBI Circulars') and other applicable circulars issued in this regard, have provided relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI Listing Regulations. In compliance with the applicable provisions of the Act, SEBI Listing Regulations and MCA Circulars, to transact business set out in the Notice calling the 23rd AGM dated 11th August, 2023.

Members are hereby informed that in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report fo the FY 2022-23 has sent electronically on 2nd September, 2023 to all the Members of the Company whose email address are registered with the Company/Registrars and Transfer Agent/Depository Participant(s).

The Resolutions covered in the Notice of the 23rd AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulation, 2015. National Securities Depository Limited (NSDL') has been engaged by the Company for providing the e-voting platform. The e-voting facility will also be available at the AGM and members, who have not cast their votes by remote evoting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote at the AGM.

by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday 19th September, 2023 will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or through e-voting at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM to information purposes only. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or investor@bigshareonline.comrequesting for user ID and password for remote voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose The period for remote e-voting starts at 09:00 a.m. on Saturday, the 23rdSeptember, 2023 and ends at 05:00 p.m. or

Monday, the 25th September, 2023, there after the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have casted their votes by remole-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again. In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questio

- (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact: (a) Mr. Amit Vishal, AVP / Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai 400 013 at 022-24994360/ 022-24994545 or at E-mail ID: evoting@nsdl.co.in
 - (b) Mr. Prakash Chhajer, Company Secretary, ARSS Infrastructure Projects Limited, Plot-38, Sector-A, Zone-D, Mancheswa Industrial Estate, Bhubaneswar-751010 at telephone nos. 0674-2602763 or e-mail at cs@arssgroup.in

The company has appointed Mr. Jyotirmoy Mishra (Membership No. FCS -6556 & CP No. 6022) of M/s Sunita Jyotirmoy 8 Associates, Practicing Company Secretaries, Bhubaneswar as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process as well as voting at the Annual General Meeting in a fair and transparent manner.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 23rd AGM, The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's corporate website www.arssgroup.in and on NSDL's e-voting website Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE)

As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, for registering their e-mai addresses to receive the Notice of AGM and Integrated Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting:

- For members who hold shares in demat mode:
- Visit the link https://bigshareonline.com//InvestorRegistration.aspx Enter the DP ID & Client ID, PAN details and captcha code.
- System will verify the Client ID and PAN details
- On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number.
- Enter your e-mail address and mobile number
- The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of servicing the Notice of this AGM along with the Annual
- Members holding shares in dematerialized mode are however requested to register/ update their e-mail address with the relevant Depository Participants(s) for permanent registration.
- For members who hold shares in physical mode:
- Visit the link https://bigshareonline.com//InvestorRegistration.aspx
- Enter the physical Folio Number, PAN details and captcha code In the event the PAN details are not available on record, member to enter one of the share certificate's number.
- System will verify the Folio Number and PAN details or the share certificate number
- On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number
- Enter your e-mail address and mobile number.
- If PAN details are not available, the system will prompt the member to upload a self-attested copy of the PAN card
- The system will then confirm the e-mail address for the purpose of servicing the Notice of this AGM along with the Annual Report 2022-23 **Book Closure:** Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Manageme

and Administration) Rules, 2014 and applicable regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 19th September, 2023 to Tuesday, the 26th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 23rd AGM of the Comp for the financial year ended March 31, 2023. The Notice of the 23rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2022-23 are available on the Company's corporat

website (www.arssgroup.in), NSDL's e-voting website (www.evoting.nsdl.com) and on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) By Order of the Board/Resolution Professional For ARSS Infrastructure Projects Ltd.

Place: Bhubaneswar Date: 04.09.2023

(Prakash Chhajer) (Company Secretary & Compliance Officer) (FCS - 8473)

V Vipul

VIPUL LIMITED

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.ir

NOTICE OF THE 32NDANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS n continuation to our newspaper advertisement dated August 11, 2023, notice is hereby given that the 32NDAnnual General Meeting ("AGM") of Vipul Limite "the Company") will be held on Saturday, September 30, 2023 at 12:30P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in compliance with torovisions of the Companies Act, 2013 (the Act') and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') Circulars No. 14/2020 dat April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021 he Company is convening the 32ND Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at a common venue. Further, Securities and Exchangly Board of India ('SEBI'), vide its Circulars No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 Jated May 13, 2022 and SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 ('SEBI Circulars') and other applicable circulars issued in this regard, alonwith any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated August 11

office of the Company i.e. Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi-110017. n compliance with the provisions of the Companies Act. 2013 ('Act'), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEE isting Regulations), MCA and SEBI Circulars, the 32NDAGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physics because of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending the meetin

2023, without the physical presence of the Members at a common venue. The deemed venue of the Annual General Meeting of the Company is the registe

hrough VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The said Notice along with Annual Report inter alia containing Board's Report, Corporate Governance Report, Auditors' Report and the Audited Financia Statements has been dispatched/circulated to all Members at their registered e-mail IDs, and the same is also available on the website of the Com www.vipulgroup.in as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic votin

vstem ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting he remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2023, 9:00 a.m. and ends on Friday, September 29, 2023, 5:00 p.m. The remote

voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change quently. At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked. The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM throu VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vo through e-voting system in the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast the

he voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Saturda September 23, 2023 ("cut of date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, ma obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in**. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, thei the existing user id and password can be used. If they have forgotten their password, they can reset their password by using 'Forgot User Details/ Password option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at foll free no : 1800 1020 990, and 1800 22 44 30

letailed procedure for obtaining Login ID/User ID and Password is also provided in the notice of AGM which is available on the Company's website www.vipulgroup.in and also on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. n case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholder vailable at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.:18001020990 and 1800224430 or e-mail

oting@nsdl.co.in. n case of any grievance(s) in connection with voting by electronic means, the Members may contact to Mr. Shrawan Mangla, T-34, IInd Floor, Okhla Industr Area, Phase-II,New Delhi-110020, Email Id: info@masserv.com, Tel No.: 011-26387281-83 or send an e-mail to the Company Secretary

FURTHER NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosu tequirements) Regulations, 2015; the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Generally, a member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need n e a member of the Company. Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the aforesaid Circulars, physical attendance of members has bee lispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendan

All documents referred to in the Notice will also be available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Not up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an email to **secretarial@vipulgroup.in.** fembers seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company on or befo

Saturday, September 23, 2023 through email on **secretarial@vipulgroup.in** . The same will be replied by the Company suitably Members who have not yet encashed their dividend warrants for the earlier years are requested to write to the Secretarial Department at the Registered o Corporate Office of the Company to claim the dividend. Details of unclaimed dividend as on September 30, 2022 i.e. date of last Annual General Meeting, ar available in the investors section of the website of the Company **www.vipulgroup.in.**

Member may note that during the financial year 2023-24, the Company will be required to transfer to the Investor Education and Protection Fund, inte lividend declared by the Board of Directors of the Company in the month of November 2016 and which is lying unclaimed with the Company for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend. All Members are requested to register their e-mail address with the Company. In support of green initiative, the Company will send you the Annual Reports ar

other relevant information and documents at your registered e-mail address. Registering e-mail address will help in better communication between Compar and you as an esteemed stakeholder, and further reduce cost of communication and most importantly save environment by reducing use of paper. Kindly ser our details at secretarial@vipulgroup.in or info@masserv.comfor registration of e-mail address

Mis AVA Associates through its Partner Mr. Amitabh, Practicing Company Secretary (Membership No. A14190, COP No. 5500), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process as well as for e-Voting during the AGM, in a fair and transparent manner. Members who would like to express their views/ask questions during the meeting need to register themselves as a speaker by sending their request mentionin heir name, demat account number/folio number, e-mail ID and mobile number at secretarial@vipulgroup.in on or before Saturday, September 23, 202 6:00 pm IST). Those members who have registered themselves as a speaker will only allowed to express their views/ask questions during the AGM. The ompany reserves the right to restrict the number of speakers attending on the availability of time for the AGM.

The results of the remote e-Voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The result eclared, along with Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.vipulgroup.in and on the website of the NSDL a www.evotingnsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz BSE an NSE and be available on their websites at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

Sunil Kuma

ate: September 04, 2023



AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that:

- September 24, 2023, 9:00 A.M. (IST)
- Date and time of end of remote e-voting.
-) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on September
- d) Cut-off date as on which the right of the members shall be reckoned e) Any person, who become member of the Company after dispatch
- g) A person, whose name is recorded in the register of members as on
- i e www.evotingindia.com

Place : Chennai Date: 05.09.2023

Annual General Meeting:

appointed National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through

Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity

but shall not be entitled to vote on such resolution(s) again. A non-individual shareholder or shareholder holding securities in physical mode and who becomes a Member of the Company after the despatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password for remote e-Voting by sending a

. Individual shareholders holding securities in electronic mode and who acquires shares of

Mr. S. Samdani of M/s. Samdani Shah & Kabra, Practicing Company Secretaries has bee

Members may note that the Board of Directors of the Company at its meeting held on 5th May,



















कार्यालय वसूली अधिकारी-I ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बिक्री उदघोषणा सचन

आर.सी. सं. 339/2014 मैसर्स पेगासस एसेट रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हैलेक्स एप्लायड पॉवर लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय

अनुसूची के नियम 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा सीडी#1 हैलेक्स एप्लायड पावर प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः ए-49, इंजन हाउस मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट मथुरा रोड, नई

दिल्ली-110044 सीडी#2 एशियन पावर कंट्रोल लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, पताः 96, अर्काडिया, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021

सीडी#3 हैलेक्स इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रकर. पंजीकृत कार्यालयः ए-49, इंजन हाउस मोहन कोऑपरेटिव इंडरिस्ट्रयल एस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 सीडी#4 श्री मनीष मोहन मुक्कर, पुत्र श्री मोहन मुक्कर निवासी एए/8, शिव वाटिका, अंसल विला-सतबाड़ी, छतरपुर, नई दिल्ली-110030

नियम एवं शर्तें जबिक प्रतिवादियों के विरुद्ध मुकदमा दाखिल करने की तिथि से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और शुल्क सहित प्रमाणपत्र देनदारों र 14.25% वार्षिक ब्याज के साथ के 16.31.45.540.00 (रुपये सोलह करोड़ इक्तीस लाख पैतालीस इजार पांच सौ चालीस मात्र) के वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा आहरित ओए संख्या 174/2011 दिनांक 19.09.2014 में वसूली प्रमा

पत्र संख्या 339/2014 तैयार किया गया था। **वसुली योग्य राशि रु. 16,31,45,540.00** (**लगभग**) है)। 2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसुली प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूचित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। s. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में उक्त सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी द्वारा की जायेगी और यह बोली 06.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. **के बीच और यदि जरूरी हुआ तो 12 बजे दोपहर के उपरांत 5 मिनट के** विस्तार के साथ वेबसाइट : https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन डलेक्टॉनिक बोली'' द्रारा सम्पन्न होगी। 4. यह बिक्री नीचे अनुसूची में नामित उपरोक्त सीडी की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं

वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। 5. संपत्ति को अनसची में निर्देष्ट के अनसार बिकी के लिए रखा जाएगा। यदि बिकी से प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिकी र ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी को इस तरह के प्रमाण पत्र. ब्याज और लागत की राशि का भगतान कर दिया गया है तो बिक्री बंद कर दी जाएगी।

 ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलिसले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जितकरने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।

7. यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्टशर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तो

7.1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती. त्रिट अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरहायी नहीं होंगे। 7.2. आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सम्पत्ति सं. 1. फ्लैट नं. I-214, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027,

नहीं बेची जायेगी, वह **आरक्षित मूल्य** : रु. 35,00,000⁄- (**रुपये पैतीस लाख मात्र**) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) : रु. ३.५०,००० (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र) उपरोक्त पैरा (i) में उल्लिखित सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में है। 7.3. जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण आदि सहित दस्तावेजों के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलि

अधिकतम 04.10.2023 **को** 5.00 **बजे अप.** तक कार्यालय वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली में जमा कर दी है वे 06.10.2023 को 11.00 बजे पर्या. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि बोली नीलामी बन्द होने के अन्ति 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः 5 मिनट के लिए विस्तारित हो जायेगा।

7.4. बोलीदाता सम्पत्ति के संबंध में अपने प्रस्ताव रु. 1,00,000/- (रु**पये एक लाख मात्र**) के गुणकों में बढ़ायेंगे।

7.5. असफल बोलीदाता ईएमडी राशि ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद कार्यालय वसुली अधिकारी-I, डीआरटी-II दिल्ली/सीएच अर्थात पेगासस से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

7.6. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I. डीआरटी-II. दिल्ली खाता आरसी नं. 339/2014 के पक्ष में संविदा/विक्रय राशि के 25% का डिमांड डाफ्ट/पे आर्डर तैयार करन होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार भेजना होगा ताकि वह ई-नीलामी बन्द होने से 24 घण्टे के भीतर उस पते पर पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

7.7. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अन्य अवक दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रजिस्ट्रार डीआरटी-II, दिल्ली खाता **आर.सी. नं.** 339/2014 के पक्ष में देय डीडी पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। (डाव द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए)।

7.8. सफल/उच्चतम बोलीदाता इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर प्रयुक्त टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनयम की धारा 194-आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोलीदाता को श बिक्री आय का भुगतान करते समय फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.9. निर्धारित अविध में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं, तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चुक करने वा क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है तथा जो है यही है" आधार पर की जा रही है।

सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों को प्रमाणित और सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है।

 अधोहस्ताक्षरी को यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने या उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

सम्पत्ति की अनुसूची				
बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवसण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण	
प्लैट नं. I-214, अंसल क्लासिक टॉवर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली- 110027		अज्ञात	अज्ञात	
आर.सी. नं. 339/2014 दिनांक : 01.08.202				

पेगासस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स हैलेक्स एप्लायड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 01.08.2023 के अनुसार दिनांक 06.10.2023 को सार्वजनिक ई नीलामी द्वारा नीचे वर्णित संपरि

पद नीलामी विक्री वेबसाईटः https://drt.auctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी। नीलामी की तिथि एवं समयः 06.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. (12.00 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ ते 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	इएमडा
1. फ्लैट नं. I-214 (वाणिज्यिक यूनिट), अंसल क्लासिक टॉबर, प्लॉट नं. 1, जे. ब्लॉक, राजीरी गार्डन, नई दिल्ली- 110027		रु. 3,50,000/- तीन लाख पचास हजार मात्र)

1. नीलामी विक्री वेबसाइट पोर्टल https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन ई-नीलामी''द्वारा की जायेगी। 2. ज.ध.रा. ''वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली-खाता आर.सी. सं. 339/2014 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित **खाता : पेगासस ग्रुप थ्री ट्रस्ट-III तथा मुम्बई फोर्ट शाखा, मुम्बई समाचार मार्ग, पोस्ट** बॉक्स नं. 282, मुम्बई-40001, आरटीजीएस विवरण : आईएफएससी कोड : 1D1B000F523, जमा घरोहर राशि खाता सं. 50172747022 में जमा करनी होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या ईएमडी के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान का मूल प्रमाण और पहचान (वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें भावी सम्पर्क के लिए पता हो, तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति के साथ अधिकतम 04.10.2023 को 5.00 बजे अपराहन तक वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास पहुँच जानी वाहिए। इसके पश्चात प्राप्त ज.ध.रा. पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. भेजने वाले के विवरण अर्थात पता, ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. अथवा ज.ध.रा के भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर ''आरसी सं. 339/2014'' लिखा जाना चाहिए।

. संपत्ति की बिक्री '**जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी यही है''** आधार पर की जा रही है।

संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://drt.auctiontiger.net अवश्य देखें तथा/अथवा **श्री रमाकांत पांडे, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाइ** 9087788888, प्लॉट नंबर 2, यूनिट नंबर 106, बेस्ट बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 पर सम्पर्क करें . संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अधिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो **मैसर्स ई-पोक्योग्मेंट टेक्नोलॉजी**ज लिमिटेड, ए-801, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद -380006, दूरभाष नं. 9265562821/18/079-68135476/451/408/407, ई-मेल : support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम शर्मा, मोबाइ

ने. : 8000023297, ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से प्राप्त करके उपर्युक्त ई-नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य हैं। 7. इच्छुक बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए-801, वाल स्ट्रीट-II, सामने ओरिएण्ट क्लब, निकट गुजरात कॉले ब्रिज, अहमदाबाद -380006, दूरभाष नं. : 9265562821/18/079)68135476/451/408/407 : support@auctiontiger.com, सम्पर्क व्यक्ति : श्री राम शर्मा, मोबाइल नं. : 8000023297

ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। 8. इच्छुक क्रेता 18.09.2023 तथा 19.09.2023 को 10.30 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।

9. जिन संविदाकारों के पास वैध यूजर आईडी एवं पासवर्ड धारक तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.र का सुनिश्चित भुगतान होगा केवल वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

10. इच्छुक संविदाकार जिन्होंने 04.10.2023 तक आरक्षित मृल्य से अधिक पर अपनी संविदाएँ जमा कर दी हैं केवल वे ही 06.10.2023 को 11. बजे पूर्वा. से 12.00 बजे अप. तक आयोजित होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि संविदा नीलामी वन्द होने के समय के अन्तिम

5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट विस्तारित हो जायेगा।

11. संविदाकार सम्पत्ति के संबंध में रु. 1,00,000/ (रुपये एक लाख मात्र) के गणक में अपने प्रस्ताव बढायेंगे।

12. असफल संविदाकार ई-नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तुरन्त वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच अर्थात पेगासस के कार्याल से ईएमडी सीधे प्राप्त करेंगे।

13. सफल/उच्चतम संविदाकार को धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के पश्चात वसुली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आर. i. 339/2014 के पक्ष में बोली/विक्रय राशि के 25% का डिमाण्ड ड्राफ्ट/पेऑर्डर ई-नीलामी की समाप्ति के 24 घण्टों के भीतर तैयार कराना हो और इसे कार्यालय वसली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के पास ई-नीलामी बन्द होने के 24 घण्टों के भीतर भेजना/जमा करना होगा जिसमें असफल रहने पर जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।

14. सफल/उच्चतम संविदाकार को अधिकारी $-\mathrm{I}$, डीआरटी $-\mathrm{II}$, दिल्ली के समक्ष विक्रय प्रक्रिया की शेष 75% राशि अधिकारी $-\mathrm{I}$, डीआरटी $-\mathrm{II}$ दिल्ली. खाता आर.सी. सं. 339/2014 के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से सम्पत्ति की बिक्री की तिथि के 15वें दिन या इससे पर्व. ऐसे दिन को छोड़कर, अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के पश्चात प्रथम कार्यालयी दिवस पर रु. 1,000 तक 2% दर से तथा इस राशि के रु. 1000∕- से अधिक होने पर 1% की दर से पाउण्डेज शुल्क सहित वसूली अधिकारी, डीआरटी-I के समक्ष जमा करेगा . (75% की शेष राशि डाक द्वारा जमा करने के मामले में यह उपर्युक्त के अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँच जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के . भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे त बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से के सभी दावों कं जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।

15. सफल/उच्चतम बोलीदाता इस फोरम के समक्ष जमा की जाने वाली प्रस्तावित नीलामी राशि पर लागू टीडीएस का भुगतान करने के लिए आयव अधिनियम की धारा 194–आईए के प्रावधानों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसी स्थिति में, सफल/उच्चतम बोलीदाता को शेष बिक्री आ का भुगतान करते समय इस फोरम के समक्ष उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

16. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद, संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। य अधोहस्ताक्षरी उचित समझे तो बिक्री के खर्च चुकाने के बाद जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और दोषी क्रेता संपत्ति या उस राशि वे किसी भी हिस्से के सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। 17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को सीडी पर विक्रय की घोषणा दस्ती, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट तथा सम्पत्ति के स्पष्ट भाग पर चिपकाकर

आसपास ड्रम बजाकर करने के लिए निर्देशित किया जाता है और इसकी एक प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी। 18. बिक्री उद्घोषणा/आदेश अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ऐसे समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी जिसके वितरण का क्षेत्र व्यापक हो।

19. सीएचएफआई/सीएच बैंक को समाचार-पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की पुष्टि करने तथा इस प्रकाशन के मूल प्रमाण को सुनवाई की तिथि के

20. यदि स्वीकार्य नहीं पाया गया तो किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी समय नीलामी स्थगित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 01.08.2023 को दिया गया।

ऋण वसूली अधिकारी-II

Vipul

V

विपुल लिमिटेड

कॉरपोरेट कार्यालय : विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500, वेबसाइट : www.vipulgroup.in

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक साधारण बैटक की सूचना समाचार पत्र में दिनांक 11 . अगस्त, 2023 को प्रकाशित हमारे विज्ञापन के संबंध में आगे एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायिव पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन गठित नियमों के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जार्र पहिचुना पर घर्चा करन के तिए कैपना आधानवम, 2013 (आधानवम) तथा उसके अधान गाउँदा निवास के साथ पाउँदा कारपारट काव मंत्रालय (एमसाए) द्वारा जाए परिचन में 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सं 17/2020 दिनांक 13 क्रांत्र, 2020, में 20/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, मं. 21/2021 दिनांक 14 दिसम्बर, 2021, मं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 तथा 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी (सामृहिक रूप से एमसीए परिचन कहा गया है) के प्रावधानों के अनुपातन के अनुपार एक सामान्य स्थान पर कंपनी के सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बगैर पियुल तिमिटेड (कंपनी) की 32वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12.30 वर्ज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विज्युल साधनों (ओएपीएम) के जरिए आयोजित करने जा रही है। इसके अलावा, मारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिचन सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीएसडी/सीएमडी/रियाडी/सीएचडी/सीएमडी/सीएमडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/सीएमडी/रियाडी/ सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, संबी/एकओ/सीएमडी/सीपाईडी-र्सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, संबी/एकओ/डीडीएचएल/ पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022 तथा संबी/एकओ/सीआरडी/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (सी पिराज तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्नों के साथ इस संबंध में एससीए तथा/अथवा संबी द्वारा जारी अन्य कोई भी लागू परिपत्नों के अनुसार कंपनी सामान्य स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के बगेर एजीएम की सूचना दिनांकित 11 अगरत, 2023 में निर्धारित व्यवसायिक पहलुओं पर चर्चा किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक साधारण वैठक का मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (संबी सूचीकरण विनयम) तथा एमसीए परिपत्नों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की 32वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के जिरए संचालित की जा रही है, जिसके तिए एक साधारण स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जिरए एजीएम में उपस्थित एवं मान सेकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। बोर्ड के प्रतिवेदन, निगमित अभिशासन प्रतिवेदन, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित दिनीय विवरण सम्मिलित वार्षिक प्रतिवेदन के साथ उक्त सूचना सभी

सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेज दिए गए हैं तथा वह कंपनी की वेबसाइट **www.vipulgroup.in** के साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर्र लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

िलिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 की यारा 108 के साथ पिठत कंपनी (प्रवंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसार एनएसडीएल द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिगोट ई-वोटिंग") द्वारा कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है तथा इन वोटिंग के जिए व्यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जा सकता। रिगोट ई-वोटिंग की अवविध मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को सुबह 9.00 बजे आरम्भ होगी एवं शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को अपसाहन 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि एवं तारीख के उपरांत रिगोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रमांत नहीं दी जाएगी। हमोटी के अवविध के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर दी जाएगी। हमोटी हमें उन्हों हमोटी की अविध के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर दी जाएगी। हमोटी हमीटी हमें अवविध करने वाल हमें की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमोटी हमें की अवविध के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर दी जाएगी। हमीट ई-वोटिंग की अवविध के समाप्त होने पर संबंधित सेवा वैधा विधा स्थापनी के प्रतिधा एक्टी के उन्हों पार्थी के उन्हों साथ के के अविध गर्म के किया हमें उन्हों हमें की अवविध के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर वी जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा वीसी/ओएवीएम की सविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित रहने वात इत्तरद्वानिक वाटिंग प्रगाली के जारेए वाट डालन को सुवधा एजाएंम के दारान उपलब्ध रहागी तथा विभाजाएवाएंम को वालें सदस्यों तथा रिमोट ई-वोटिंग के जिरए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है तथा ऐसा करने के लिए उन पर पार्वदी नहीं लगी है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रगाली के जिए वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के जिए अपना वोट डाल चुके सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे दोवाया वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। सदस्यों का वोटाधिकार शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 ("अंतिम तारीख") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आधार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी का सदस्य हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सूचना में निर्घारित सभी प्रस्तावो

कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनते हैं एवं अंतिम तारीख को शेयर धारण रखते हैं.

काई में व्यक्ति, जो एजाएम को सूचना मजन के बाद कपना के शवर को आधाइंडण कर कपना को सदस्य बनत है एवं आतम तीराख को शवर घरण रखत है, व evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति अगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरपॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड' का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से नीचे उल्लेखित टोल फ्री सं, 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
लॉग इन आईडी/यूजर आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने की विस्तृत पद्धित एजीएम की सूचना में भी उपलब्ध है, जो कंपनी की वेबसाइट यानी www.vipulgroup.in

तथा (नाएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting@nsdi.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया www.evoting@nsdi.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशचन (एफएक्यू) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 18001020990 तथा 1800224430 पर सम्पर्क करे

इन्याटम यूजर मनुजल तथा क्रिक्य जाता आरफ व्यवस्थ (एक्एक्ट्र) दख जववा एन्एकजाएल का टाल का न. 1500 1020 556 तथा 1500 22 556 वर्ष अथवा voting@nsdl.co.in पर ईमेल करें । इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वेटिंग के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत रहने पर सदस्यगण श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडी: **info@masserv.com,** दूरभाष सं.: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव को

राचा, कणा, निब्र स्थान 10020 से कुमल जोड़का **moemasserv.com,** दूरनान स.ट. 011=20007201=00 वर संचय के संचय के समय secretarial@vipulgroup.in पर ईनिल भेज सकते हैं। **एतद्दारा पुनः सूचित किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण जरूरत) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों के रिजस्टर एवं कैपनी की अंतरण पुस्तिका शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शनिवार 30 सितम्बर, 2023 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

साधारण तीर पर, बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान के योग्य सदस्य अपनी जगह पर उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं तथ प्रतिनिधि को सदस्य होना आवश्यक नहीं है। बुकि उपरोक्त सकुंतरों के अनुसार बीसी/ओएवीएम के जिए एजीएम के आयोजन होने के कारण सदस्यों की मीतिक रू से उपस्थिति की जरूरत नहीं है। फुलस्वरूप, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी तथा अतएव प्रतिनिधित्व प्रपत्र तथ

उपस्थिति पर्ची यहां संलग्न नहीं किया गया है। उपारचार पंचा पढ़ा तराने नहां पढ़ा गया है। इस सूचना के जारी किए जाने से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुक्क का मुगतान किए सूचना में उल्लेखित संबंधित दस्तावेज निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य **secretarial@vipulgroup.in** पर ईमेल भेज सकते हैं। खाते के संबंध में अथवा एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी मांगने वाले सदस्यों से शनिवार, 23 सितम्बर, 2023

अथवा उससे पहले कंपनी के पास secretarial@vipulgroup.in पर मेल के जरिए लिखने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से

दिया जाएगा। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए अपने लामांश अधिपत्र को जिन सदस्यों ने अब तक नहीं मुनाया है उनसे अपने लामांश का दावा करने के लिए कंपनी के पंजीकृत अथवा कारपोरेट कार्यालय के सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में पत्राचार करने का अनुरोध किया जाता है। 30 सितम्बर, 2022 तक यानी अंतिम वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक दावारहित लामांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in के निवेशक खंड में उपलब्ध है। सदस्य ध्यान दे कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी को नवम्बर, 2016 महीने में कंपनी के निवेशक मंडल द्वारा घोषित अंतरिम लामांश जो अमुक्त लामांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के पास दावारहित के रूप में पढ़ी हुई उस राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण की

जारप्यस्ता होगा। सभी सदस्यों से अपने ई-मेल एड्रेस कंपनी के पास पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। हरित पहल के समर्थन में कंपनी आपको वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मूल्यवान हिस्सेदार के रूप में आपके के साथ बेहतर तरीवे से संचार करने में सहायक साबित होगी, तथा संचार पर होने वाले व्यय में भी कटीती होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि कागज के इस्तेमाल में कटीती से पर्यावरण की सुरक्षा होगी। ई-मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना ब्यौरा secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर भेजें। ई-बोटिंग की प्रक्रिया के साथ एजीएम के दौरान ई-बोटिंग को स्वच्छ एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए ई-बोटिंग की प्रक्रिया की जांच के लिए जांचकत्ती के

रूप में मैसर्स एथीए एसोसिएट्स अपने साझेदार श्री अमिताम, अम्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. ए14190, सीओपी सं. 5500) को नियुक्त किया गया है। बैठक के दौरान जो सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं उन्हें शनिवार 23 सितम्बर, 2023 (शाम 6,00 बजे भामास) अथवा उससे पहले secretarial@vipulgroup.in पर अपना नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर भेज कर एक वक्ता के रूप में स्वयं का पहल secretarial@wplugroup.in पर अपना नान, हिमट खाता संख्या/फालया नम्बर, इन्नल आईडी तथा माबाइल नम्बर भग कर एक वाठा क रूप न स्वय का पंजीकरण करना होगा। वक्ता के रूप में जिन सदस्यों का पंजीवम किया जाएगा एजीएम के दौरान सिर्फ वही अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।प्रमन् के पास एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के अनुसार उपस्थित रहने वाले वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित है। दिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम के दौरान डाले गए बीट के परिणाम को एजीएम के समापन से दो कार्यकारी दिवस के अंबर घोषित कर दिया जाएगा। घोषित परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद घोषित परिणामों के साथ जांचकती के प्रतिवंदन कंपनी की वेबसाइट www.evoting@nsdl.com पर जारी किया जाएगा तथा एस्पंडीएल की वेबसाइट www.evoting@nsdl.com पर जारी किया जाएगा तथा एस्पंडीएल की वेबसाइट अपने हैं। विकास स्वाय जाएगा एवं

उनकी वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध रहेगा।

कृते विपुल लिमिटेड सुनील कुमार कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम तारीख : 04 सितम्बर, 2023



SHRIRAM City

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्टियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : कार्यालय सं. एफ-01, प्रथम तल, मंगलम फन स्क्वैयर, दुर्गा नर्सरी रोड, उदयपुर-313001, राजस्थान, वेबसाइट : www.shriramfinance.in

माँग सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड" को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानितयों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनियन हाइनेस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण को थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजू कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते का नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम) फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गर्यी सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गर्यीऔर उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)∕सह-कर्जदार(रों) का नाम	बकाया राशि	ऋण खाता संख्या तथा ऋण राशि
ऋण संख्या CDUD2LP2207210002, और CDUD2LP2207210001 मैसर्स श्रीजी गोल्ड (प्रोपराइटर भूपेन्द्र जिरवा) (कर्जदार) 3, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, क्लॉक टॉवर, उदयपुर-313001 श्री भूपेन्द्र जिरवा पुत्र हर गोविंद जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) फ्लैट नंबर बी-जी-003, फ्लॉट नंबर 1-2-बी, नया आरटीओ कार्यालय, भुवाना, उदयपुर, 313001 श्री चंद्र प्रकाश जिरवा पुत्र हर गोविंद जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) किर्तविंवा गहती, नाथद्वारा, राजसमंद-313301 श्रीमती अंजनी कुमारी सिंह पत्नी भूपेन्द्र जिरवा (सह-कर्जदार/गारंटर) फ्लैट नंबर बी-जी-003, फ्लॉट नंबर 1-2-बी, नया आरटीओ कार्यालय, भुवाना, उदयपुर-313001 एनपीए दिनांक- 04-जुलाई-2023	क. 5195061/- (रुपये इक्यावन लाख पिचानबे हजार इकसट मात्र) ऋम सं. CDUD2LP22 07210002 तथा CDUD2LP22 07210001 का, फोर क्लोजर राशि दिनांक 21.08.2023 के अनुसार तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार ब्याज एवं प्रभार	ऋण सं. CDUD2LP 2207210002 रु. 13,50,000/- (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र) का तथा CDUD2LP 2207210001 रु. 36,50,000/- (रुपये छत्तीस लाख पचास हजार मात्र)

प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता

फ्लैट नंबर बी-जी 003 का समस्त भाग, 'मनीष एन्क्लेव-बी' में, (अमर विला-बी के रूप में भी जाना जाता है), प्लॉट नंबर 1-2-बी, नया आरटीओ कार्यालय (खसरा नंबर 4380,4381 एवं 4382) ग्राम-भुवान, उदयपुर (राजस्थान) पर स्थित, निर्माण क्षेत्र-1001 वर्ग फुट (सुपर बिल्ड-अप एरिया-1484 वर्ग फीट)। सीमा विवरण:- पूर्व- सड़क से 60 फीट पीछे, पश्चिम- फ्लैट संख्या बी-जी-006 से पीछे गलियारा, उत्तर- फ्लैट संख्या बी-जी-002, दक्षिण- फ्लैट संख्या बी-जी-004।

संपत्ति-2 - प्लॉट नंबर 64 और 65, अराजी नंबर 4331, राजस्व गांव-उमरदा, तहसील-गिरवा, उदयपुर (राज.) में स्थित का सम्पूर्ण भाग, माप 3600 वर्ग फुट, सीमा विवरणः- पूर्व- सड़क 30 फीट, पश्चिम- प्लॉट संख्या 61 और 62, उत्तर- प्लॉट संख्या

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : उदयपुर ह./ अधिकृत प्राधिकारी दिनांक : 05.09.2023 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

एसएमसी इंश्योरैंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड

आईआरडीएआई-डायरेक्ट बोकर । लाइसेन्स नंबर : डीबी-272/04/289 । संवर्ज - डायरेक्ट लाइसेन्स की वैषता 27-01-2026 तक । सीआईएन नंबर : U66000DL1995P1C172311 पंजी. कार्यानय : 11/6बी, शांति चैम्बर, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 फोन : +91-11-25754365 । ई-मेल : smc@smcindiaonline.com वेबसाइट : www.smcindiaonline.com

शेयर पूंजी कम करने के पंजीकरण की सूचना

एतददारा सचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण नर्ड दिल्ली ("एनसीएलटी") ने याचिका संख्या 128/एनडी/2021 के तहत एक आदेश दिनांकित 23–11–2022 द्वारा एसएमसी इंश्योरैंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड की शेयर पूंजी कम करने की पृष्टि की है। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली ("आरओसी") ने, दिनांक 28–08–2023 को, कम्पनी की शेयर पूंजी कम करने को अमल में लाने हेतु उक्त आदेश तथा माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित संक्षिप्त विवरण, जिसमें उक्त आदेश द्वारा संशोधित कम्पनी की पूंजी तथा शेयर्स का विवरण दर्शाया गया है, की प्रति पंजीकृत कर ली है।

माननीय एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित तथा आरओसी द्वारा पंजीकृत संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : "कम्पनी की प्रदत्त पूंजी इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की 63.77 प्रतिशत घट जाएगी। विद्यमान निर्गत, अंशदानकृत और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू. 10 / – (रूपए दस) प्रत्येक के 4,14,00,000 ियार करोड़ चौदह लाख) इक्विटी शेयर्स की कुल योग राशि क. 41,40,00,000 (इकतालीस करोड़ चालीस लाख) है जो कम्पनी के प्रत्येक शेयरधारक से क्रमानुसार यथानुपात आधार पर घट कर . 10/- (रूपए दस) प्रत्येक के 1,50,00,000 (एक करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयर्स की कुल योग राशि रू. 15,00,00,000 (पंद्रह करोड) हो जाएगी।

वास्ते **एसएमसी इंश्योरँस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड**

प्रवीण कुमार अग्रवाल पर्ण कालिक निदेशक डीआईएन : 00197478



बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1993PLC051841 पंजी.कार्यालयः 352, अग्रवाल 'लाजा, 'लाट नं. 8 कोंडली, नई दिल्ली—110096 निगमित कार्याः एफसी—23, सेक्टर—16ए, फिल्म सिटी, नोएडा—201301 ज.प्र. Tel: 91 120 460 2424, Fax No. 91 120 3911 401 Web: www.bagnetwork24.in. Mail: info@bagnetwork.in

30वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना, ई—वोटिंग और बुक क्लोजर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **बी. ए. जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड** ("कंपनी") के सदस्यों की **30वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम")** कोमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना वीसी/ओएवीएम के द्वारा वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने की प्रक्रियाएं व तरीके निर्धारित करते हुए क्रमशः साधारण परिपन्न सं. 14/2020 व 17/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपन्न नं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपन्न सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर (समग्र फर से "एमसीएम परिपन्नों के फ्या में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड ("संबी") द्वारा जारी परिपन्न सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपन्न सं. SEBI/HO/CDD/P/CIR/2022/0063 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपन्न सं. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 ("समग्र फर से संबर्धिन) के अनुपालन में, वीडियो कांक्रिसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुखन माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 4.00 (मामास) पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अनुपालन म, वाडिया काफ्रासम ("वासा") / अन्य आडिया विजुअल मध्यमा (आएवाएम) द्वारा **बुधवार, २७ सितंबर, २०२३ को शाम ४.०० (भामास)** पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, २०१३ के लागू प्रावधानों, एमसीए परिएत्रों और सेबी परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५, ("सेबी सूचीबद्ध विनियम)") के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी / ओएवीएम द्वारा आयोजित की जाएगी ।

अर्थाजार मार्चित करियात्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, 30वीं एजीएम की सूचना और कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक प्रतियां, उन सभी संदर्भों को 01 सितंबर, 2023 को भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट या डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइट www.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और

स्टार्क एक्सचर्ज आफ इंडिया लिमिटर्ड को विसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) की ई—वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों और उसके साथ बने नियमों और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 42, संशोधित अनुसार, के अनुपालन में, सदस्यों के रिजस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण बुक्स एजीएम के उद्देश्य के लिए गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

रेषी सूचीबद्ध विनियमों के विनयम 44, कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्टरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साधारण बैठक पर सचिवीय मानक, समय—समयू पर संशोधित अनुसार, | शांडन| क्षारा जारा जावारण बठक पर साववाय मानक, समय-समय पर संशाधित अनुसार, स्वरूपों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिर्टात (ई–वोटिंग) का प्रयोग कर 30वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा दी गई है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार **कट-ऑफ डेट अर्थात् बुधवार, 20 सितंबर,** 2023 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा आयोजित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे | रेमोट ई–वोटिंग /ई–वोटिंग और एनएसडीएल द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम

रजीएम में उपस्थित होने के लिए विस्तृत प्रक्रिया 30वीं एजीएम की सूचना में दी गई है। सदस्यों से 30वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार ई–वोटिंग / एजीएम से संबंधित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने का अनुरोध है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : 1. 30वीं एजीएम में वर्णित अनुसार एनएसडीएल के ई—वोटिंग प्लेटफॉर्म अर्थात्

vw.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा व्यापार का लेन–देन

रिमोट ई—वोटिंग की शुरुआत शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (भामास) होगी और समाप्त मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (भामास) पर होगी। काना जार तनाथ नगरवार, 2013 की सान 300 की (नानात) वर होगा । इलैक्ट्रानिक माध्यमाँ (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **कट-ऑफ डेट**

बुधवार, 20 सितंबर, 2023 है। उचित जिसके नाम कर-ऑफ डेट तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। 30वीं एजीएम की ई-मल के बाद कंपनी के शेयर लेने वाला और कंपनी का सदस्य बनने वाला व्यक्ति और कट—ऑफ डेट अर्थात् बुधवार, 20 सितंबर, 2023 तक शेयर रखने वाला ही evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भजकर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं क्रियानिक होते. हालांकि, ईं-वोटिंग के लिए पहले से रजिस्टर व्यक्ति, वोट डालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

आइडा प्राप्तिप्रक र्था प्रयान पर स्वर्णत है वीसी/आएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थि सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई— वोटिंग के माध्यम प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं, और अन्यथा ऐसा कर्ने के लिए बाधित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्य ध्यान दें कि :

(ए) रिमोट ई—वोटिंग माड्यूल ई—वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे, (बी) एक बार सृदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें उसमें किसी प्रकार

का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। (सी) इलैक्ट्रानिक वोटिंग की सुविधा एजीएम में कंवल उन्हीं सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट नहीं डाले हैं।

(डी) एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा प्रस्ताव(ओं) पर अपने वोट डालने वाले सदस्य वी्सी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे लेकिन वे ऐसे

प्रस्ताव(ओ) पर दोबारा अपने वोट डालने के पात्र नहीं होंगे | इस सूचना में संदर्भित संबंधित दस्तावेज इलैक्ट्रानिक मोड के माध्यम से संदर्गे द्वारा जांच के लिए उपलब्ध हैं | सदस्य ईं-मेल के विषय में "जांच का अनुरोध" वर्णित करते हुए इस संबंध में

ार्ग उपलब्ध है। तरस्य इन्तर्स के विषय । info@bagnetwork.in पर कंपनी को लिख सकते हैं। इलैक्ट्रानिक मध्यमों द्वारा वोटिंग / एजीएम से जुड़ी किसी पूछताछ / समस्या / शिकायत, यदि कोई है, श्री राजीव पाराशर, कंपनी सचिव – बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय / निगमित् कार्याल्य पर लिखकर कंपनी को प्रेषित कर सकते हैं या info@bagnetwork.in पर ई—मेल भेज सकते हैं या टेली: +91 120 460 2424 पर कॉल करें। जिन सदस्यों ने अपने ई—मेल पते रजिस्टर नहीं किए हैं / अपने बैंक खाते मैंडेट अपडेट नहीं किए हैं, कृपया निम्न निर्देशों का पालन करें:

फिजिकल होल्डिंग राजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ स्व—सत्यापित समर्थित दस्तावेजों व अन्य संबंधित फार्म के सहित विधिवत भरा हुआ निर्धारित फॉर्म आईएसआर—1 में विवरण रजिस्टर / अपङेट सदस्य https://bagnetwork24.in/ shareholders-corner कंपनी की वेबसाइट से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर

संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई—मेल पते रजिस्टर / अपडेट होल्डिंग

भैसर्स बार्लिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 4816 और सीओपी सं. 3222) को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की जांच करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा जांचकर्ता के रूप में

ापुर्वताक्ष्यां पान । रिमोट ई—नोटिंग (एजीएम से पहले और ईजीएम के दौरान) से संबंधित किसी पूछताछ/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछ जाने वाले प्रश्न (एफ्क्यूज़') और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें : 022—4886 7000 और 022—2499 7000 या evoting.nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी मात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक— एनएसडीएल को अनुरोध भेजें । निदेशक मंडल के आदेशानुसार

बी.ए.जी.फिल्म्स एंड मीडिया लि. के लिए

स्थान : नोएडा

नियक्त किया गया है।

राजीव पराशर कंपनी सचिव